

1. Equity/ordinary shares समता/साधारण अंश

ये अंश जिन्हें लाभांश प्राप्ति तथा प्रीम का वार्षिक वा वार्षिक विशेष इतिवार नहीं मिलता अर्थात् स्थापना तथा पूर्वविकार अंश वा मुगलक मिल जाते हैं उक्त अंश यदि कोई दायित्वपूर्ण ~~कर~~ देना पड़े तो वह मुगलक किया जाता है अन्यथा नहीं।

2. Preference shares

ये समता अंश जहाँ प्रीम का लाभांश प्राप्ति का पूर्वविकार प्राप्त होता है, प्रीम का अंश कहलाता है। इस अंशधारियों को समता अंशों का उक्त अंश लाभांश एवं प्रीम का वार्षिक प्राप्ति है।

अतः पूर्वविकार अंशधारियों को निम्न शीर्षकों में वर्गीकृत कर के अंशों को जा सकती है। जैसे -

→ शीर्षकीय तथा - अंशधारणीय पूर्वविकार अंश
Redeemable and Non-Redeemable Pref. shares

→ भाग लेने तथा अंशधारणीय पूर्वविकार अंश
Participating and Non participating Pref. shares

→ संचयी तथा अंशधारणीय पूर्वविकार अंश
Cumulative and Non cumulative Pref. shares